



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2019/फाल्गुन 28, 1940

No. 42]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2019/PHALGUNA 28, 1940

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2019

आ. अ. 55 (अ).—यतः, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना, जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 19 मार्च, 2019 (मंगलवार) में प्रकाशित करवाया गया, के द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों में उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं;

2. **अतः, अब,** उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा –

(अ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित **निर्धारित** करता है:

(क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख—**26 मार्च, 2019 (मंगलवार)**

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख—**27 मार्च, 2019 (बुधवार)**

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख—**29 मार्च, 2019 (शुक्रवार)**

(घ) नीचे की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी तारीख के रूप में निर्धारित करता है जिसको यदि आवश्यक हुआ तो उक्त, **अनुसूची** के कॉलम (2) में तद्नुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा ; और

(ङ) ऐसी तारीख जिससे पहले उपर्युक्त सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा—**27 मई, 2019 (सोमवार);** और

(आ) उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट समय को, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए, इसके कॉलम (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

अनुसूची
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मतदान की तारीख एवं समय
चरण-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
असम	1- करीमगंज (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	2- सिल्चर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	3-स्वशासी जिले (अ.ज.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	8-मंगलदाई	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	10-नौगोंग	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
बिहार	10-किशनगंज	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	11- कटिहार	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	12- पूर्णियाँ	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	26- भागलपुर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	27- बाँका	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
छत्तीसगढ़	6-राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
	71- पंडरिया वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	72- कवर्धा वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	73- खैरागढ़ वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	74- डोगरगढ़ (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	75-राजनांदगांव	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा.

छत्तीसगढ़	वि.स.नि.क्षेत्र		05:00 बजे तक
	76- डोंगरगांव वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	77-खुज्जी वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	78- मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 03:00 बजे तक
9-महासमुन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्र			
55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 03:00 बजे तक (मतदान केन्द्र सं. 77 अमामोरा और मतदान केन्द्र सं. 78 औध के लिए) पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक (शेष मतदान केन्द्रों के लिए)	
39- सराईपाली (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	
40-बसना वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	
41- खल्लारी वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	
42- महासमुन्द वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	
54- राजिम वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	
57- कुरुद वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	
58- धमतरी वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	
11-कॉंकेर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र			
79-अंतागगढ़ (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 03:00 बजे तक	
80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 03:00 बजे तक	
81- कॉंकेर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 03:00 बजे तक	
56-सिहावा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	
59-संजारी बालोद वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	
60-डोंडी लोहारा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	
61-गुन्डरदेही वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	
82-केशकाल (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक	

जम्मू-कश्मीर	2-श्रीनगर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	5-उधमपुर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
कर्नाटक	15-उदीपी चिकमगलुर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	16-हसन	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	17-दक्षिण कन्नड	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	18-चित्रदुर्ग (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	19-टुमकुर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	20-मान्ड्या	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	21-मैसूर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	22-चामराजनगर (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	23-बंगलौर ग्रामीण	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	24-बंगलौर उत्तर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	25-बंगलौर केन्द्रीय	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	26-बंगलौर दक्षिण	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	27-चिक्काबल्लापुर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
28- कोलार (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक	
महाराष्ट्र	5-बुलढाणा	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	6-अकोला	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	7-अमरावती (अ.जा)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	15-हिंगोली	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	16-नांदेड	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

महाराष्ट्र	17-परभणी	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	39- बीड	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	40- उस्मानाबाद	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	41-लातूर (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	42-सोलापुर (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
मणिपुर	1-आंतरिक मणिपुर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
ओडिशा	1- बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
	1-पदमपुर वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	5-भाटली वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	2-बिजेपुर वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	4-अट्टाबीरा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	3-बारगढ़ वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	6-ब्रजराजनगर वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	7-झारसुगुडा वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	2- सुन्दरगढ़ (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
	11-रघुनाथपाली(अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	14-बोनाई (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	8-तल्सरा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	9-सुन्दरगढ़ (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
ओडिशा	10-बीरमित्रपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	13-राजगंपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	12-राउरकेला वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	10-बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		

	67-पटनागढ़ वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	70-कान्ताबंजी वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	64-बीरमहाराजपुर (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	65-सोनेपुर वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	66-लोईसिंधा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	68-बोलंगीर वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	69-तितलागढ़ वि.स.नि.क्षेत्र	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	13-कंधामल	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	19-अस्का	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
तमिलनाडु	1-तिरुवल्लुर (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	2-चेन्नई उत्तर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	3-चेन्नई दक्षिण	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	4- चेन्नई केन्द्रीय	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	5- श्रीपेरुम्बुदुर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	6- कांचीपुरम (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	7- अराक्कोनम	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	8- वेल्लोर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	9- कृष्णागिरी	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	10- धर्मापुरी	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	11- तिरुवन्नामलाई	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	12-अरानी	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	13- विलुपुरम (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	14- कल्लाकुरिची	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा.

तमिलनाडु			06:00 बजे तक
	15- सलेम	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	16- नामाक्कल	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	17- इरोड	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	18- तिरुप्पुर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	19- नीलगिरि (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	20-कोयंबटूर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	21- पोल्लाची	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	22- डिण्डीगुल	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	23- करूर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	24- तिरुचिरापल्ली	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	25- पेरम्बलूर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	26- कुड्डालोर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	27- चिदम्बरम(अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	28- मइलादुथुरई	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	29- नागापट्टिनम (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	30- थन्जावुर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	31- शिवगंगा	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
32- मदुरई	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 08:00 बजे तक	
33- थेनी	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक	
34- विरुधुनगर	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक	
35- रामानाथपुरम	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक	
36-थूथुकुडी	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक	
37- टेनकासी(अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा.	

			06:00 बजे तक
	38- तिरुनेलवेली	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	39- कन्याकुमारी	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
त्रिपुरा	2-त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
उत्तरप्रदेश	5-नगीना (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	9-अमरोहा	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	14-बुलन्दशहर (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	15-अलीगढ़	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	16-हाथरस (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	17-मथुरा	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	18-आगरा (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	19-फतेहपुर सीकरी	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
पश्चिम बंगाल	3-जलपाईगुड़ी (अ.जा.)	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	4-दार्जिलिंग	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	5-रायगंज	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
पुडुचेरी	1-पुडुचेरी	18 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

[सं. 464/ईपीएस/2019(2)]

आदेश से,

सुमित मुखर्जी, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2019

O.N. 55(E).—WHEREAS, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 19th March, 2019 (Tuesday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in column (2), of the Schedule in column (1), to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-
- (A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule,
- (a) **the 26th March, 2019 (Tuesday)**, as the last date for making nominations;
- (b) **the 27th March, 2019 (Wednesday)**, as the date for scrutiny of nominations;
- (c) **the 29th March, 2019 (Friday)**, as the last date for withdrawal of candidatures;
- (d) the date specified in column (3) of the SCHEDULE below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule; and
- (e) **the 27th May, 2019 (Monday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and
- (B) **Fixes the hours** specified in column (4) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (3) thereof, for the above election.

SCHEDULE
Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll
PHASE-II

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
ASSAM	1-Karimganj(SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
	2-Silchar	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
	3-Autonomous District(ST)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
	8-Mangaldoi	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
	10-Nawgong	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
BIHAR	10-Kishanganj	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	11-Katihar	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	12-Purnia	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	26-Bhagalpur	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	27-Banka	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
CHHATTISGARH	6-Rajnandgaon PC		
	71- Pandariya, AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
	72- Kawardha AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
	73- Khairagarh AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
	74- Dongargarh (SC) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
	75- Rajnandgaon AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
	76- Dongargaon AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
	77- Khujji AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
	78- Mohla-Manpur (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 3:00 PM
	9-Mahasamund PC		
55- Bindranawagarh (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	7:00 AM to 3:00 PM (For PS No. 77 Aamamora and PS No. 78- Odh) 7:00 AM to 6:00 PM (For Rest PS)	

CHHATTISGARH	39- Saraipali (SC) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM	
	40- Basna AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM	
	41- Khallari AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM	
	42- Mahasamund AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM	
	54- Rajim AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM	
	57- Kurud AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM	
	58- Dhamtari AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM	
	11-Kanker (ST) PC			
	79- Antagarh (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 3:00 PM	
	80- Bhanupratappur (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 3:00 PM	
	81- Kanker (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 3:00 PM	
	56- Sihawa (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM	
	59- Sanjari Balod AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM	
	60- Dondi Lohara (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM	
	61- Gunderdehi AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM	
82- Keshkal (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM		
JAMMU & KASHMIR	2-Srinagar	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	5-Udhampur	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
KARNATAKA	15-Udupi Chikmagalur	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	16-Hassan	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	17-Dakshina Kannada	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	18-Chitradurga (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	19-Tumkur	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	20-Mandya	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	21-Mysore	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	22-Chamarajanagar (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	23-Bangalore Rural	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	24-Bangalore North	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	25-Bangalore Central	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	26-Bangalore South	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	27-Chikkballapur	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	28-Kolar (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
MAHARASHTRA	5-Buldhana	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	6-Akola	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	7-Amravati (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	15-Hingoli	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	16-Nanded	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	17-Parbhani	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	39-Beed	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	40-Osmanabad	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	41-Latur (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
42-Solapur (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM		
MANIPUR	1-Inner Manipur	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 4:00 PM	
	1-Bargarh PC			

ODISHA	1-Padampur AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 4:00 PM	
	5-Bhatli AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 4:00 PM	
	2-Bijepur AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	4-Attabira (SC) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	3-Bargarh AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	6-Brajarajnagar AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	7-Jharsuguda AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	2-Sundargarh (ST) PC			
	11-Raghunathpali (SC) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 4:00 PM	
	14-Bonai (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 4:00 PM	
	8-Talsara (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	9-Sundargarh (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	10-Biramitrapur (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	13-Rajgangpur (ST) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	12-Rourkela AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	10-Bolangir PC			
	67- Patnagarh AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 4:00 PM	
	70- Kantabanji AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 4:00 PM	
	64- Birmaharajpur (SC) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	65- Sonapur AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	66- Loisingha (SC) AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	68- Bolangir AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	69- Titlagarh AC	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
13-Kandhamal PC				
19-Aska PC				
TAMIL NADU	1- Tiruvallur (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	2- Chennai North	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	3- Chennai South	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	4-Chennai Central	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	5-Sriperumbudur	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	6-Kancheepuram (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	7- Arakkonam	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	8-Vellore	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	9-Krishnagiri	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	10-Dharmapuri	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	11-Tiruvannamalai	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	
	12-Arani	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM	

	13-Viluppuram (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	14- Kallakurichi	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	15- Salem	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	16- Namakkal	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	17- Erode	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	18-Tiruppur	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	19-Nilgiris (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	20-Coimbatore	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	21-Pollachi	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	22- Dindigul	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	23-Karur	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	24- Tiruchirappalli	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	25- Perambalur	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	26-Cuddalore	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	27-Chidambaram (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	28- Mayiladuthurai	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	29-Nagapattinam (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	30-Thanjavur	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	31-Sivaganga	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	32-Madurai	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 8:00 PM
	33-Theni	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	34-Virudhunagar	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	35-Ramanathapuram	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	36-Thoothukkudi	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	37-Tenkasi (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	38-Tirunelveli	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	39-Kanniyakumari	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
TRIPURA	2-Tripura East (ST)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 5:00 PM
UTTAR PRADESH	5-Nagina (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	9-Amroha	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	14-Bulandshahr (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	15-Aligarh	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	16-Hathras (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	17-Mathura	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	18-Agra (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	19-Fatehpur Sikri	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
WEST BENGAL	3-Jalpaiguri (SC)	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	4-Darjeeling	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
	5-Raiganj	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM
PUDUCHERRY	1-Puducherry	18th April, 2019 (Thursday)	07:00 AM to 6:00 PM

[No. 464/EPS/2019(2)]

By Order,
SUMIT MUKHERJEE, Principal Secy.